



बिजनौर पुलिस



PRESS  
NOTE



आज दिनांक 14.11.2021 को डॉ0 धर्मवीर सिंह पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर द्वारा रिजर्व पुलिस लाईन सभागार में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों के सम्बन्ध में रिजर्व पुलिस लाईन बिजनौर के सभागार कक्ष में जनपद के समस्त अपर पुलिस अधीक्षक/उपजिलाधिकारी/क्षेत्राधिकारियों के साथ गोष्ठी की गयी।

गोष्ठी में बताया कि पिछले चुनाव की अपेक्षा इस चुनाव में 116 बूथों की वृद्धि की गयी है अवतक कुल 1671 बूथ तथा 3111 मतदान केन्द्र चिन्हित हो चुके हैं। पिछले चुनाव में 227 सैक्टर बने हुये थे जो अब 250 या उससे अधिक बनाये जाने पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त चुनाव के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

### गोष्ठी में निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया-

- ✚ शराब के ठेके वाली दुकानों पर संयुक्त रूप से चेंकिंग की जाये तथ वहाँ पर लगे सीसीटीवी कैमरा जरूर चेक किये जाये।
- ✚ शराब की दुकान के लाईसेंस धारक दुकान के अतिरिक्त कहीं दूसरी जगह पर पर भण्डारण नहीं कर रहे है जाँच की जाये।
- ✚ जनपद में शस्त्रों की दुकानों पर संयुक्त रूप से चेंकिंग की जाये उनके सभी रजिस्टर तथा स्टॉक चेंक किया जाये।
  - दुकानदार ने कितने कारतूस किस लाईसेंस धारक को बेंचे तथा कितने खोखे वापस लिये।
  - किस लाईसेंस धारक द्वारा कितने-कितने कारतूस खरीदे जा रहें है।
- ✚ गाँवों के बवाली तथा टुवल मेकर चिन्हित कर उन पर कार्यवाही करायी जाये।
- ✚ गुण्डा एक्ट तथा जिलाबदर की कार्यवाही करायी जाये। कोई जिलाबदर जिले में तो नहीं रह रहा है, निरन्तर निगरानी की जाये।
- ✚ लाईसेंसधारियों के शस्त्रों को जमा कराने की कार्यवाही की जाये तथा स्क्रीन कमेटी द्वारा किन लाईसेंस धारियों के शस्त्र जमा न कराये जाने है इसकी भी कार्यवाही की जाये।
- ✚ संवेदनशील मतदान केन्द्र व ट्रवल मेंकर पर कार्यवाही की जाये।
- ✚ चुनाव रजिस्ट्रों का अवलोकन कर पिछले चुनावों में झगड़ा/फसाद करने वालों को चिन्हित किया जाये।
- ✚ किस-किस मतदान केन्द्र पर अन्य कोई विवाद है उसको निपटाया जाये।
- ✚ किस-किस गाँव में चुनावी रंजिश है वहाँ पर स्वयं जाकर गोष्ठी कर उनको समझाया जाये।

पिछले चुनावों में पंजीकृत कराये गये अभियोगों की समीक्षा करें।

अवैध शराब तथा अवैध शस्त्र का निर्माण व विक्रय किसी भी दशा में न होने पाये।

अवैध शराब माफिया तथा अवैध शस्त्र फैक्ट्री में जेल गये लोगों की निगरानी की जाये कहीं जमानत पर आने के बाद वह पुनः इन्हीं अपराधों में लिप्त तो नहीं हो गये हैं।



**थाना कोतवाली देहात:-** थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त मोहम्मद शाकिर पुत्र मजहर हुसैन निवासी ग्राम अकराबाद थाना कोतवाली देहात जिला बिजनौर को एक देसी तमंचा 315 बोर व जिंदा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । जिसके विरुद्ध मु0अ0सं0 306/21 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया ।



**थाना नगीना देहात:-** थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त रिकू पुत्र प्यारेलाल निवासी ग्राम चुड़ैल थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को 01 अवैध नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया । जिस सम्बन्ध में थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 343/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।



**थाना शेरकोट:-** थाना शेरकोट पुलिस द्वारा अभियुक्त जितेंद्र पुत्र कृपाल सिंह निवासी मोहल्ला निकम्मा शाह कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।





बिजनौर पुलिस



नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत थाना शेरकोट पुलिस द्वारा क्षेत्र में बाबूजी मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल शेरकोट में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत थाना नांगल पुलिस द्वारा क्षेत्र के ग्राम दिनौडी में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा क्षेत्र के ग्राम शादीपुर में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



